

बच्चे और मानसिक स्वास्थ्य



#JharkhandFightsCorona



- ♦ माता-पिता या अभिभावक के लिए आवश्यक है कि वे बच्चों को खुशनुमा माहौल दें।
- ♦ बच्चों से घर पर ही विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतिविधियां करवाएं।
- ♦ बच्चों के आसपास मानसिक गतिविधियों और रचनात्मकता के लिए अच्छा वातावरण तैयार करें।



मास्क पहनना



हाथ धोना



दो गज की दूरी



टीका लगवाना

नगरीय प्रशासन निदेशालय, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखंड सरकार

Toll free no.: 1800-120-2929 | Website : www.dmajharkhand.in | Follow us on :     @JharkhandDMA